



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 109]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 1980/फाल्गुन 30, 1901

No. 109]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 1980/PHALGUNA 30, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

पटसन आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

कलकत्ता, 20 मार्च, 1980

का. आ. 198(39).—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 11 द्वारा मुझमें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पटसन आयुक्त के अधिसूचना सं. का. आ.—663(ई) दिनांक 19 नवम्बर, 1974, का. आ.—582(ई), दिनांक 23 जुलाई, 1977 तथा का. आ.—29(ई) दिनांक 19 जनवरी, 1977 का अधिक्रमण करते हुए मैं, ए. के. मुखर्जी, पटसन आयुक्त एतद्वारा अपनी ओर से उक्त आदेश के खण्ड 11 के उपखण्ड (अ) (ब) (स) द्वारा मुझमें सन्निहित शक्तियों के प्रयोगार्थ पश्चिम बंगाल सरकार के अधोलिखित प्रत्येक अधिकारी को राज्य में उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के लिए प्राधिकृत करता हूँ :—

1. अपर कृषि निदेशक (वाणिज्यिक फसलें) पश्चिम बंगाल ।
2. संयुक्त कृषि निदेशक (जालपाईगुड़ी) क्षेत्र/कल्याणी क्षेत्र/अलीपुर क्षेत्र/मिदनापुर क्षेत्र तथा बांकुरा क्षेत्र ।

3. संयुक्त कृषि निदेशक, विपणन ।
4. अपर कृषि निदेशक, विपणन ।
5. कृषि अधीक्षक, विपणन (जालपाईगुड़ी/कल्याणी/वर्दवान तथा मुख्यालय) ।
6. परियोजना अधिशाषी अधिकारी, आई.ए.जी.पी., वर्दवान ।
7. प्रधान कृषि अधिकारी (पश्चिम दीनाजपुर/मर्शिदाबाद/नदिया/24 परगना) (उत्तर एवं दक्षिण)/मिदनापुर(पूर्व एवं पश्चिम)/हुगली/बांकुरा तथा बीरभूमि ।
8. परियोजना अधिकारी (बहुउपज), (कुच बिहार/दार्जिलिंग/जालपाईगुड़ी/मालदा, पुरुलिया) ।
9. जिला कृषि अधिकारी, हावड़ा/वर्दवान ।
10. सभी उपमंडल कृषि अधिकारी ।
11. सभी सहायक उपमंडल कृषि अधिकारी ।
12. सभी पाट विकास अधिकारी ।
13. कनिष्ठ पटसन विकास अधिकारी ।
14. भाइग्राम के मिदनापुर जिला उपमंडल तथा दार्जिलिंग पर्वतीय उपमंडल खण्डों को छोड़कर उ.पू.द. खण्ड के सभी कृषि विस्तार अधिकारी ।

15. कृषि अधीक्षक (विपणन), पाट श्रेणीकरण एवं विपणन, पश्चिम बंगाल ।

स्पष्टीकरण.—उपरोक्त प्रत्येक अधिकारी, पश्चिम बंग राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

[फा. नं. 9/20/79-जूट]

ए. के. मुखर्जी, जूट कमिशनर

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER

NOTIFICATION

Calcutta, the 20th March, 1980

S.O. 198(E).—In exercise of the powers conferred on me by clause 11 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961 and in supersession of the Jute Commissioner's Notifications No. S. O. 663(E) dated 19th November, 1974 S. O. 582(E) dated 23rd July, 1977 and S. O. 29(E) dated 19th January, 1977, I, A. K. Mukherjee, Jute Commissioner, hereby authorise each of the officers of the Government of West Bengal specified below to exercise, on my behalf, within their respective jurisdiction in the State, the powers vested in me by sub-clause (a), (b) and (c) of clause 11 of the said Orders, until further orders :

1. Additional Director of Agriculture (Commercial Crops), West Bengal.

2. Joint Director of Agriculture (Jalpaiguri Range/Kalyani Range/Alipore Range/Midnapore Range and Bankura Range)
3. Joint Director of Agriculture, Marketing.
4. Additional Director of Agriculture, Marketing.
5. Superintendent of Agriculture, Marketing (Jalpaiguri, Kalyani, Burdwan and Headquarters)
6. Project Executive Officer, I. A. D. P., Burdwan.
7. Principal Agricultural Officer, (West Dinajpur/Murshidabad/Nadia/24-Parganas (North and South)/Midnapore (East and West)/Hooghly/Bankura and Birbhum).
8. Project Officer (Multiple Cropping), (Cooch Behar, Darjeeling/Jalpaiguri/Malda and Purulia).
9. District Agricultural Officer/Howrah/Burdwan.
10. All Sub-Divisional Agricultural Officers.
11. All Assistant Sub-Divisional Agricultural Officers.
12. All Jute Development Officers.
13. Junior Jute Development Officer.
14. All Agricultural Extension Officers of N.E.S. Block except the Blocks of Jhargram Sub-Division of Midnapore District and Hill Sub-Division of Darjeeling District.
15. Superintendent of Agriculture (Marketing), Grading and Marketing of Jute, West Bengal.

Explanation.—Each of the above officials shall exercise the said powers within the respective territorial jurisdictions as notified by the Government of West Bengal.

[F. No. 9/20/79-Jute]

A. K. MUKHERJEE, Jute Commissioner